



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : ETD 43/T

Date : 24 January 2024

TECHNICAL COMMITTEE : Standardization of Environmental Aspects for Electrical and Electronic Products, ETD 43

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Standardization of Environmental Aspects for Electrical and Electronic Products Sectional Committee, ETD 43. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : ETD 43 (24711) WC

Title of the document : Determination of certain substances in electrotechnical products Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry GC-MS

Document Type : New Indian Standard

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) *Specifies one normative technique for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers of electrotechnical products. These PAHs can especially be found in the plastic and rubber parts of a wide range of consumer articles.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 24 March 2024

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at eetd@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,
A R Unnikrishnan
Head (Electrotechnical Department)
Email: eetd@bis.gov.in**



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : ETD 43/T

दिनांक : 24-01-2024

तकनीकी समिति : Standardization of Environmental Aspects for Electrical and Electronic Products Sectional Committee, ETD 43

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : ETD 43 (24711) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 24 March 2024

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : A R Unnikrishnan
(Electrotechnical Department)
ई-मेल : eetd@bis.gov.in